

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3200

मंगलवार, 23 मार्च, 2021/2 चैत्र, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**बौद्ध सर्किट का विकास**

**3200. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 2017-18 में 'प्रसाद' योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में सालिहुंडम-थोत्लाकोंडा – बाविकोंडा – बोजनकोंडा और गुंटुर जिले में बौद्ध सर्किट अमरावती-अनुपु बौद्ध सर्किट के विकास को स्वीकृति दी गई थी और सरकार द्वारा इस उद्देश्यार्थ 52 करोड़ रुपया को भी मंजूर किया गया था;
- (ख) यदि हां, तो सर्किट का ब्यौरा क्या है;
- (ग) राज्य सरकार ने परियोजना संबंधी प्रस्ताव कब सौंपे थे और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;
- (घ) क्या सरकार ने अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के संबंध में कोई और स्पष्टीकरण मांगे हैं;
- (ड.) यदि हां, तो प्रश्नों का ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और
- (च) यह परियोजना कब तक पूरी की जाएगी?

**उत्तर**

**पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)**

(क) से (च): पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 में 'स्वदेश दर्शन' योजना के बौद्ध परिपथ थीम के अंतर्गत 52.34 करोड़ रु. की कुल राशि से शालीहुंडम- थोटलाकोंडा- बाविकोंडा- बोजनकोंडा- अमरावती- अनूपू के विकास की परियोजना को स्वीकृति दी है और कार्यान्वयन एजेंसी को 26.17 करोड़ रु. की राशि जारी की है। संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत की गई थी और दिनांक 25 सितंबर 2017 को इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत घटक कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं।

परियोजना के प्रमुख घटकों में पर्यटक सुविधा केंद्र, पार्किंग सुविधा, सांस्कृतिक केंद्र, ओपन एयर थियेटर, लैंडस्केपिंग, स्मारक प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी, वाईफाई आदि शामिल हैं।

\*\*\*\*\*